

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 1968 (वर्तिक 30, 1890
No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 1968/KARTIKA 30, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November 1968

G.S.R. 2066.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 98 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chairman of the Rajya Sabha, hereby makes the following further amendment in the Rajya Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1957, namely:—

In the Second Schedule to the said Rules under the heading "Class II Gazetted" after the entries relating to item "6A. Selection Grade Reporter", the following entries shall be inserted, namely:—

Designation of post	Pay or scale of pay admissible to pre-1931 entrants	Pay or scale of pay otherwise admissible
(1)	(2)	(3)
"6B. Chief Editor	..	700—10—1100"

The amendment takes effect from the 20th November, 1968.

[No. F. RS/1(i)/68-Personnel.]

B. N. BANERJEE, Secy.

(607)

